

August 25, 2023

National Stock Exchange of India Ltd.,	BSE Ltd.,	Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex Bandra [E], Mumbai – 400051	Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	Vibgyor Towers, 4 <sup>th</sup> Floor, Plot No. C62, G - Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla, Complex, Bandra (E), Mumbai – 400098
NSE Scrip Symbol: BLS	BSE Scrip Code: 540073	MSE Scrip Symbol: BLS

Subject: Newspaper Advertisements for attention of Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding the 39<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company

Dear Sir / Madam,

In compliance with the General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022 and December 08, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has published Newspaper Advertisements for the attention of the Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding the 39<sup>th</sup> AGM scheduled to be held on Thursday, September 21, 2023 at 03:00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility, to the members of the Company, published today i.e. Friday, August 25, 2023 in the following newspapers:

- 1. Financial Express- English Language- All edition
- 2. Jansatta- Hindi Language Delhi Edition

The aforesaid Newspaper clippings are also uploaded on Company's website at https://www.blsinternational.com.

For BLS International Services Limited

Dharak A. Mehta Company Secretary and Compliance Officer ICSI Membership No.: ACS40502

Encl: as above

........

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH, AT NEW DELHI CA (CAA) - 62/ ND /2023 In the matter of the Companies Act, 2013

In the matter of Sections 230 - 232 read with other relevant provisions of the Companies Act, 2013 In the matter of Scheme of Arrangement between GE India Industrial Private Limited

and GE Renewable R&D India Private Limited and their respective shareholders and creditors GE Renewable R&D India Private Limited, CIN: U74999DL1993PTC053789, (PAN

AAACG0921B) a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 and having its registered office at A-18, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase II, South Delhi, New Applicant No. 2/Resulting Company ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF EQUITY SHAREHOLDERS AND

Notice is hereby given that by an order dated August 17, 2023 (the "Order"), the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench ("Tribunal") has directed separate meetings to be held of the equity shareholders and unsecured creditors of GE Renewable R&D India Private Limited ("Applicant No. 2/ Resulting Company" or "GERRDIPL") for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the proposed Scheme of Arrangement involving demerger ("Scheme") between GE India Industrial Private Limited (Applicant No. 1/ Demerged Company) and GERRDIPL and their respective shareholders and creditors.

meetings of equity shareholders and unsecured creditors of GERRDIPL will be held as under, a which time and place the equity shareholders and unsecured creditors are requested to attend.

Sr. Class of No. Meetings		Date of Meetings	Time (Indian Standard Time)	Venue of Meeting		
1.	Equity Shareholders	Friday, September 29,	02:00 P.M.	Iskcon Auditorium, Iskcon Temple Complex, Sant Naga		
2.	Unsecured Creditors	2023	03:00 P.M.	Main Road, East of Kailash, New Delhi - 110 065		

As per the Order, the quorum of the meetings of the equity shareholders and unsecured creditors shall be 75% of all equity shareholders and unsecured creditors, respectively, of the Resulting Company. Further, the Hon'ble Tribunal has also directed that in the event of the quorum not being completed at the first call, the respective meetings would be called after 30 minutes and then the members/ shareholders or the unsecured creditors present and voting shall be deemed to constitute the quorum for the respective meetings.

attend and vote at the respective meetings may vote in person or through proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of GERRDIPL not later than 48 (Forty Eight) hours before the time fixed for the aforesaid meetings.

said meetings. The Hon'ble Tribunal has also appointed Mr. Atul Bhatia, Advocate, as the Alternate Chairperson and Mr. Hemant Kumar Singh, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer of the said meetings.

The proposed Scheme approved by the Boards of Directors of the Companies on 31.07.2023 and thereafter modified by the boards of the Companies on 22.08.2023, if approved in the aforesaid respective meetings, will be subject to the subsequent approval of Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench at New Delhi.

Place: New Delhi

Chairperson appointed for the meetings

BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED Regd Office: G-4B-1, Extension Mohan Co-operative Indl. Estate. Mathura Road, New Delhi - 110044

CIN: L51909DL1983PLC016907; Website: http://www.blsinternational.com

39th ANNUAL GENERAL MEETING OF BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED

Members of the Company are requested to note that the 39th Annual General Meeting (39th AGM) of BLS International Services Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 21, 2023 at 03:00 P.M IST. through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/ OAVM") facility to transact the business to be set out in the Notice of the 39<sup>th</sup> AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 2/2020 dated January 13, 2021, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), SEB Circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

Annual Report 2022-23 will be sent to those Members whose email address are available with RTA i.e. Beetal Financial Computer Services Private Limited, the Company or the Depository Participant(s) as on August 25, 2023. The physical copy of the Notice of the AGM along with Annual Report for FY 2022-23 shall be sent to those Members who request for the same at compliance@blsinternational.net mentioning their Names, Folio Number/ DP ID and Client ID.

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by email to Company/ Registrar and Share Transfer Agent ('RTA") of the Company at compliance@blsinternational.net/

The Notice of the 39th AGM and the Annual Report 2022-23 will be made available on the website of the Company at https://www.blsinternational.com, and on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com, on NSE India Limited https://www.nseindia.com and on

Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 15, 2023 to Thursday, September 21, 2023 (both days inclusive).

The Company will provide the E- voting facility to its Members whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as on end of business day of September 14 2023 (Thursday) ("Cut-off date") to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting or e-voting at the 39th AGM through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") Platform. The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-voting, will be provided as part of the

Members who hold shares in dematerialized form and want to provide/change/correct their bank account details should send the same immediately to their concerned Depository Participant and not to the Company. Members are also requested to give the IFSC, MICR Code of their bank account to their Depository Participants. While making payment of Dividend, the RTA is obliged to use only the data provided by the Depositories, in case o such dematerialized shares. Members who are holding shares in physical form are advised to submit particulars of their bank account, viz. name and address of the branch of the bank IFSC, MICR code of the branch, type of account and account number to the RTA by email or

For BLS International Services Limited

**Dharak Mehta** Company Secretary & Compliance Officer ICSI Membership No. ACS 40502

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED CIN: L24241UP1981PLC005282 Regd. Office: 51/47, Nayagani, Kanpur-208001

Ph.: +91 9415330630; Email: kelknp@yahoo.com; Website: www.khandelwalextractions.com PUBLIC NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 23rd September, 2023 at 4:00 P.M. at 50 MIG Bungalow, W Block, Keshav Nagar, Kanpur-208014 to transact the business as set out in the Notice.

The 41st AGM notice along with the Annual Report 2022-23 will be sent only by email to all those members whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA or with their respective

All the Members holding shares in physical mode are mandatorily required to furnish/ update their Email ID, Mobile No., PAN and other KYC details through Form ISR-1, to furnish the Nomination as provided in Rule 19(1) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 through Form SH-13 or to opt out from giving the Nomination through Form ISR-3 and to change the Nomination through Form SH-14 pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023. The forms are also available on the website of the Company at www.khandelwalextractions.com. This will avoid freezing of the folios on or after October 01, 2023. SEBI vide Circular No.SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTABM/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated the listed companies to issue securities in demat mode only.

The Company would be providing remote e-voting facility to its members to enable them to cast their votes on the resolutions set out in the Notice of the AGM. The Company has engaged the services of CDSL for providing this facility to the Members. Detailed instructions in this regards will form part of the Notice of the

The Members whose e-mail addresses are not registered with the DPs or the Company, are requested to egister their e-mail addresses by following the instructions below: 1. For Physical shareholders- Please provide prescribed form ISR-1 alongwith other requisite form (available on the website of Company i.e. www.khandelwalextractions.com), duly self-attested by the

shareholder(s) to Company's RTA at their address mentioned below-Alankit Assignments Limited, Alankit House 4E/2 Jhandewalan Extension New Delhi - 110055. 2. For Demat shareholders -Please update your email id and mobile no with your respective depository

participant (DP) which is mandatory while remote e-voting. The instructions for casting vote through remote e-voting or voting during AGM are provided in the notice of 41st AGM. The 41st. AGM Notice along with Annual Report 2022-23 will be made available on the website of the Company at www.khandelwalextractions.com and website of BSE Ltd. at

www.bseindia.com and website of CDSL at www.evotingindia.com.

For Khandelwal Extractions Limited Place: Kanpur Date: 25.08.2023 (Company Secretary and Compliance Officer)

(2) GCODLUCK GOODLUCK INDIA LTD.

Regd. Off.: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110 001 Corp. Off.: Good Luck House, II-F, 166-167, Nehru Nagar, Ambedkar Road, Ghaziabad, 201001 **CIN**: L74899DL1986PLC050910; **Tel**: 91-120-4196600

Notice is hereby given that the 37<sup>th</sup> AGM (Annual General Meeting) of the Company i scheduled to be held on 30<sup>th</sup> September, 2023, Saturday at 11.00 A.M. through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with general circular no.10/2022 dated December 28, 2022 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice

e-mail: goodluck@goodluckindia.com; website: www.goodluckindia.com

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2022-2023 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositaries. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM along

with annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depositary, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting. Physical Shareholders are requested to furnish their email ids, mobile no., bank

**Holding** account details for the purpose of 37<sup>th</sup> AGM (Annual General Meeting) of the Company and/or other details in Form ISR-1 and other relevant forms prescribe by SEBI with the company's Registrar and Share Transfer Agent of the Company, MAS Services Limited T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 100020. Email Id: investor@masserv.com Website:

Relevant forms prescribed by the SEBI in this regard are available on the website of the RTA at www.masserv.com under download tab. You are requested to kindly note the same and update your particulars timely.

**Demat** Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email Holding | address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by

NACH if declare by company. The Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-2023 will also be available or

Company's website at www.goodluckindia.com and also on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. For Goodluck India Limited

(Abhishek Agrawal) Place: New Delhi

Company Secretary Date: August 24, 2023

# OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - II DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN

Paras Tower, 2nd Floor, Majra Niranjanpur, Saharanpur Road, Dehradun DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE

INCOME TAX ACT, 1961. Date:19.07.2023 Union Bank of India Versus M/s Varun T Fastners & Ors.

(CD 1) M/s Varun T Fastners, At Khasra No. 194, Raipur, Industrial Area, Bhagwanura, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand. Alt. Add. 39, Kewal Park, Azadpur, New Delhi-110033

(CD 2) Naveen Kumar Tyagi S/o Late Sh. Shashi Pal Tyagi, R/o 39, Kewal Park, Tagore Marg, Azadpur, New Delhi-110033.

(CD 3) Varun Kumar Tyagi S/o Sh. Naveen Kumar Tyagi, R/o 39, Kewal Park Tagore Marg, Azadpur, New Delhi-110033.

This is to notify that as per the Recovery Certificate

issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer. DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DEHRADUN IN TA/631/2018 an amount of Rs. 76,21,977.14 (Rupees Seventy Six Lacs Twenty One Thousand Nine Hundred Seventy Seven and Paisa Fourteen Only) along with Pendentellite and future interest @11.00% simple interest yearly w.e.f. 22.01.2014 till realization and costs of Rs. 1,09,000.00 (Rupees One Lakh Nine Thousand Only) has become due against you (jointly and severally/fully/Limited).

You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under. 3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the

particulars of yours assets on or before the next date of hearing. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 08.09.2023 at 10:30 a.m. for further proceedings.

5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay: (a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate / execution

(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 19/07/2023.

Recovery Officer - II **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN** 

DDA Janta Flat No B-234, 1st Floor, Pocket 11, Jasola, New Delhi-110025 of a plinth area 21.52 Sq. Rs. 11,82,504.00 along

NOVA IRON & STEEL LTD

Regd. Office: Village Dagori, Tehsil - Belha, Distt Bilaspur (C.G.) Email: rai\_nisl2007@yahoo.com,web: www.novaironsteel.com (CIN: L02710CT1989PLC010052) Phone: 07752-285225-26 Fax: 07752-285213

Notice of 31"Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that the 31"Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 23" September 2023 at 01:00 P.M.through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM), in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under and relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular to transact the Business(es) set out in the Notice of AGM.

Notice of AGM along with Annual Report will be sent through electronic mode to those

Members whose email address are registered with the Company/Depositories/RTA by email and will also be available on Company's website i.e. www.novaironsteel.com and Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. The instruction for participating through VC/OAVM and the process of e-voting including the

manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses are provided in the AGM Notice available on Company website www.novaironsteel.com and Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

Members who have not registered their email address are requested to send an email request to rai\_nisl2007@gmail.com or info@skylinerta.com along with scanned copy of request letter, self attested PAN, share certificate and email address & mobile number to register their email address.

Members holding shares on 15/09/2023 (cut-off date) are eligible to cast their vote electronically on the resolutions as set out in the Notice of AGM through remote e-voting provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and business may be transacted through such voting. The remote e-voting shall commence at 10:00 A.M. on 20/09/2023 and end at 5:00 P.M. on 22/09/2023 and thereafter will be disabled by CDSL.

For details relating to remote e-voting, refer to Notice of AGM. In case of query relating to Evoting refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatial Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed rom 17/09/2023 to 23/09/2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Nova Iron and Steel Ltd. Sd/- (Dheeraj Kumar)

Place:New Delhi Date: 24/08/2023

STATE BANK OF INDIA Stressed Assets Recovery Branch-I 1st Floor, 23, Najafgarh Road, New Delhi-110015, Tel: 011-25419177, 25412977, E-mail : sbi.05169@sbi.co.in

Company Secretary

POSSESSION NOTICE [See Rule 8(1)] [for Immovable Property]

Whereas, the undersigned being the Authorised officer of the State Bank of India,

Stressed Assets Recovery Branch, 23, Najafgarh Road, Near Zakhira, Flyover, New Delhi, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 11.10.2022 calling upon M/s Shishodia Construction Company Private Limited (Borrower), Mr. Jagpal Singh Shishodia (Guarantor), Ms. Anuradha Singh (Guarantor), Mr. Udit Singh Shishodia (Guarantor), M/s Ati Sundar Grah Nirman and Marketing Private Ltd. (Corporate Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 6,32,22,964.88 (Rs Six Crore Thirty Two Lakhs Twenty Two Thousand Nine Hundred Sixty Four and Paise Eighty Eight only) as on 11.10.2022 with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Possession of property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security (Enforcement) Rules, 2002 on this 22nd day of

The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India for an amount of Rs. 6,32,22,964.88 (Rs Six Crore Thirty Two Lakhs Twenty Two Thousand Nine Hundred Sixty Four and Paise Eighty Eight only) as on 11.10.2022 with further interest, expenses and other charges etc. thereon. The Borrowers attention is invited to provisions of Section 13(8) of the Act, in respect of

time available, to redeem the secured assets. All previous action taken by the Bank under Section 13(4) of the act is withdrawn.

This notice is without prejudice to the Bank's right to initiate such other action or legal proceeding, as it deems necessary under applicable provisions of Law.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY 1.All that part and parcel of Commercial (Plot A-1)(mixed land use) consisting of 18

shops, Lower and upper ground floor, J.P Enclave, Mohan Nagar, Pargana- Loni Ghaziabad in the name of M/S Ati Sundar Griha Nirman and Marketing Pvt Ltd. admeasuring 265.01 sq. mtrs and bounded as :- East- Road 9 meter, West- Plot No 2, North- Plot No 14 A, South- Road 12 meter, Registered at Bahi No Zild No- 1560 . Page Nos 182-231 No 1085 dated 07.02.2004 at Sub Registrar Ghaziabad.

2.All that part and parcel of Commercial (Plot A-2) (Mixed Land Use) consisting of 12 shops Lower and Upper Ground Floor, J.P Enclave, Mohan Nagar, Pargana-Loni, Ghaziabad in the name of M/S Ati Sundar Griha Nirman and Marketing Pvt Ltd admeasuring 161.95 sq. mtrs and bounded as :- East- Plot No 1, West- Plot No 3, North-Plot No 13, South-Road 12 meter wide, Registered at Bahi No Zild No- 2128, Page Nos 343-381 No 7642 dated 30.09.2005 at Sub Registrar Ghaziabad.

Date: 22-08-2023, Place: Ghaziabad Authorised Officer, State Bank of India

STATE BANK OF INDIA Stressed Assets Recovery Branch-1st Floor, 23, Najafgarh Road, New Delhi-110015. Tel: 011-25419177, 25412977, E-mail: sbi.05169@sbi.co.in

POSSESSION NOTICE

[See Rule 8(1)] [for Immovable Property]

Whereas, the undersigned being the Authorised officer of the State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch, 23, Najafgarh Road, Near Zakhira, Flyover, New

Delhi, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 11.10.2022 calling upon M/s Shishodia Construction Company Private Limited (Borrower), Mr. Jagpal singh Shishodia (Guarantor), Ms. Anuradha Singh (Guarantor), Mr. Udit Singh Shishodia (Guarantor), M/s Ati Sundar Grah Nirman and Marketing Private Ltd. (Corporate Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 6,32,22,964.88 (Rs Six Crore Thirty Two Lakhs Twenty Two Thousand Nine Hundred Sixty Four and Paise Eighty Eight only) as on 11.10.2022 with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Possession of property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security (Enforcement) Rules, 2002 on this 22nd day of The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to

deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India for an amount of Rs. 6,32,22,964.88 ( Rs Six Crore Thirty Two Lakhs Twenty Two Thousand Nine Hundred Sixty Four and Paise Eighty Eight only) as on 11.10.2022 with further interest, expenses and other charges etc. thereon. The Borrowers attention is invited to provisions of Section 13(8) of the Act, in respect of

time available, to redeem the secured assets. All previous action taken by the Bank under Section 13(4) of the act is withdrawn.

This notice is without prejudice to the Bank's right to initiate such other action or legal proceeding, as it deems necessary under applicable provisions of Law. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of Residential Building situated at Freehold Residential

House No. CE-61-A, Block- C, Kavi Nagar, Ghaziabad-201001 admeasuring 285.34 Sq. Mtrs in the name of M/S Shishodia Construction Company Private Limited. bounded as under- East- Open land/ Service Lane, West- 11 Meter wide road, North -3.05 meter wide Kharja,, South0 40 ft Road, Registered on 26.04.20007 at Bahi No- 1, Zild No - 6985, Page No 80-135 Sr No 2636 at Sub Registrar (Pratham) Ghaziabad. Date: 22-08-2023, Place: Ghaziabad

Authorised Officer, State Bank of India

EMD

**Bid Increment** 

Rs. 12.00 Lakhs

Unit 602A, Tower-B, Konnectus, Bhav Bhuti Marg, Opp. New Delhi Railway Station, Ajmeri Gate Side, New Delhi- 110001 E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002

recovered from

Borrower/

Guarantor (Rs.)

with further interest and

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India (secured creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Union Bank of India from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned hereunder: Dues to be Reserve Price (Rs.)

Description of the Immovable property put for auction

Status of the Possession

Yards i.e., 18 Sq Mts under the ownership of Smt Suneetha Gudipudi W/o Shri Kandula Ananda

LIG Apartment, South - Road Approx 3.5 Mtr Wide, East - Others Flat, West - Gallery

(Under Physical Possession)

(Under Symbolic Possession)

S. No.	Bank Branch / Name & address of Borrower & Guarantor
	Branch: AP Bhavan Branch, No 1, Ashoka Road, New Delhi - 110001 Borrower: 1) Mr K Ananda Rao (Late) S/o Late Shri Kandula Narasaiah, (Through his legal heirs i.e., Wife - Mrs Suneetha Gudipudi & Daughter - Ms Kandula Shashikala) at C-23, AP Bhavan, New Delhi - 110001 Also at: DDA Janta Flat No B-234, 1st Floor, Pocket 11, Jasola, New Delhi - 110025 2) Mrs. Suneetha Gudipudi W/o Late Shri Kandula Ananda Rao, at C-23, AP Bhavan, New Delhi - 110001 Also at: DDA Janta Flat No B-234, 1st Floor,

Pocket 11, Jasola, New Delhi - 110025

Najafgarh Branch, RZ-26, Roshan Mandi, Near Power House, Najafgarh, 112 Sq Yards Residential Property at House No T -228 flat measuring 41.50 sq yard, second floor Rs 9,27,000/- together New Delhi-110043 with roof right bearing plot no 228 out of khasra no 33 village bindapur block Block T Uttam | with interest at the rate of Mrs Nupur Bedi W/o Prince kumar Bedi, Plot no T 228 B, 3rd floor near shitla Nagar New Delhi 110059 bearing registered sale deed no 7224 dated 19/11/2014 in the name of 9.10% p.a from Mandir Uttam Nagar New Delhi-110059

Mrs Sakshi Bala Sirswal(Guarantor) W/O R K Sirswal, C 321-322 C block Ashoka Hotel staff Qtr Chanakyapuri, South West Delhi 110021

Branch: RZ-32 OLD ROSHANPUR NAJAFGARH NEW DELHI 110043

M/S Subhash Book Depot (Prop: Mrs Narayani Devi), 2) Mr Sunny

Sangawan S/O Subhash Chand(Guarantor), 3) Mr Rajesh kumar

(Guarantor) S/O Mr Ghasi Ram, Both Residents of: RZ-1677/7 Kamla Park

Dharmpura, Najafgarh New Delhi-110043 Also at: Firm address: 301, Gaushala

Road, Chhawla Stand Najafgarh New Delhi-110043 Also at: House No-33A 2

Smt Nupur Bedi, Bounded as: EAST: House 25 wide road, WEST: T-229, NORTH: Portion of Plot no 30.11.2018. 228, SOUTH: Portion of Plot no 228 (Under Physical Possession) 15.00 Sq. Yards Commercial Shop at Shop no 301(Near Chhawla Bus stand) out of Khasra NO 52 Rs 28,84,181.16 along Old Lal Dora Deh Abadi of Village Najafgarh New Delhi-110043 bearing registered sale deed no 4777 dated 19/06/2017 in the name of Mr Sunny Sangwan S/O Subhash Chand, Bounded as per

Deed: EAST: Road 80 feet, WEST: other property, NORTH: other property, SOUTH: other property

with further interest and 11:00 AM to Rs. 1.20 Lakh Rao & Late Shri Kandula Ananda Rao S/o Late Shri Kandula Narasajah., Bounded as : North - DDA | charges. 04:00 PM Rs. 20,000/-(with unlimited extension of 10 minutes each)

26-09-2023 Rs. 19.55 Lakhs 11:00 AM to Rs. 1.96 Lakh 04:00 PM Rs. 50,000/-(with unlimited extension of Rs. 24.30 Lakhs

10 minutes each) 26-09-2023 11:00 AM to Rs. 2.43 Lakh 04:00 PM Rs. 50,000/-(with unlimited extension of 10 minutes each)

**Date and Time** 

of Auction

26-09-2023

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

ASSET RECOVERY BRANCH, D-26/28, Connaught Place, New Delhi-110001 (Working at M-35, First Floor, Outer Circle, Connaught Place, New Delhi - 110 001)

E-mail: ubin0554723@unionbankofindia.bank

[Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Whereas, the undersigned being the authorized officer of Union Bank of India, Asset Recovery Branch situated at M-35, First Floor, Outer Circle, Connaught Place, New Delhi - 110001 under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 06.06.2022 calling upon the borrower M/s. Maverick Foods A-190/1, DDA Flats, Phase-I, Ashok Vihar, New Delhi-110052 & guarantors Mr. Ramesh Thadani S/o Mr. Chand Thadani B 2003, IREO Uptown, Sector-56, Golf Course Extension road, Gurgaon-122002, Haryana, Mr. Prashant Asrani s/o Mr. Darshan Ansari H No 61/9, Primerose, Vatika City, Sector-49, Gurgaon-122001, Haryana, Ms. Sakshi Thadani B 2003, IREO Uptown, Sector-56, Golf Course Extension

क्रियन वैक 🕼 Union Bank

C AND THE PARTY NAMED IN

Two and Paisa Ten only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 23rd of August 2023.

Road, Gurgaon-122002, Haryana to repay the amount mentioned in the notice being Rs

42.33,292.10 (Rupees Forty Two Lakhs Thirty Three Thousand Two Hundred Ninety

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Union Bank of India, at M-35, First Floor, Outer Circle, Connaught Place, New Delhi - 110001 for an amount Rs 42,33,292.10 (Rupees Forty Two Lakhs Thirty Three Thousand Two Hundred Ninety Two and Paisa Ten only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to the borrower to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Immovable property bearing Flat No F-1302 on 13th floor, Tower-F, "Krish Vatika"

having super built up area about 1520 sq ft together with the undivided share or interest in the portion of the land situated at Alwar Road, Bhiwadi, Dist-Alwar, Rajasthan in the name of Mr. Ramesh Thadani s/o Mr. Chand Thadani, the said property is bounded as: EAST: Flat No F-1303-1304, West: Club House, North: Flat No nternal road/Boundary wall, South: Flat No F-1301.

Date: 23-08-2023, Place: New Delhi Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA

punjab national bank पंजाब नेशनल बेक the name you can BANK upon!

PNB MINAR GATE (067310) PALWAL

POSSESSION NOTICE

under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice Served on 03-06-2022 calling upon the Borrower Sh. Surendra Bhati S/o Rajaram (R/o D-461 H.No. 461 Ward no 30 Dukariya Mohalla Patli Gate Palwal Pin Code-121102 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 5,99,858/- [Rupees Five lakh ninty nine thousand eight hunread fifty eight ] as on 31-05-2022 plus future interest plus other charges within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank

and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section

(8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank for an amount of Rs. 5,99,858/- [Rupees Five lakh ninty nine thousand eight hunread fifty eight ] as on 31-05-2022 plus future interest plus other charges.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

to the extent of 7/100th share i.e 3.5 marlas (21'6\*42') situated at dukariya

Property Owned By: Sh. Surendra S/o Rajaram Em of plot comprising khasra no 697(2-10) and measuring 2 kanals 10 marlas

mohalla palwal with in the municipal limits of palwal, Bounded as Under: North -House of Sh Shobha Ram, South - House of Sh Edal Singh, East - Gali, West - Other

Date: 19-08-2023, Place: Palwal Authorised Officer, Punjab National Bank

punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक the name you can BANK upon PNB MINAR GATE (067310) PALWAL

POSSESSION NOTICE Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice Served on 21-03-2023 calling upon the Borrower Sh. Ajay Singh S/O Khubi Ram (R/O H No. 639 (588/65 b) Jhabar Nagar palwal pin code 121102 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 645126.49 /[Rupees Six Lakh Forty Five Thousand One hundred Twenty Six and Forty Nine paisa only ] as on 21-03-2023 plus future

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this

interest plus other charges within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said

the 19th August 2023 The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank for an amount of Rs. 645126.49 [Rupees Six Lakh Forty Five Thousand One hundred Twenty Six and Forty Nine paisa only ] as on 21-03-2023 plus future

interest plus other charges. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

Property Owned By: Sh. Ajay Singh S/O Khubi Ram, EM of Property No 588/65-B, Area measuring 200 sq. Yards which is the forming Part of Khasra No.1256/2 to the extent of 13/18th Share i.e. 6 1/2 Marlas, Situated at Jhabar Nagar Palwal Within The Limits of Municipal Limits Palwal, District Palwal, Bounded as Under: North- Prop of Sh Devi Ram, South-

Gali, East - Prop. of Mr. Lalit Mohan, West - Ganda Nala/Now Road Date: 19-08-2023, Place: Palwal Authorised Officer, Punjab National Bank

punjab national bank पजाब नैशनल बैंक

> PNB MINAR GATE (067310) PALWAL POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice Served on 03-06-2022 calling upon the Borrower 1. Smt Kashmiri Devi w/o Chander Bhan Gupta (R/o house no 3387 Gupta Ganj Palwal pin code 121102) 2. Sh. Chander Bhan Gupta s/o Jai Chand Gupta (R/o house no 3387 Gupta Ganj Palwal Pin Code 121102) 3. Sh Hemant Gupta s/o Chander Bhan Gupta (R/o house no 3387 Gupta Gan Palwal Pin code 121102) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,42,624/-[Rupees One lakh forty two thousand six hundred twenty four only ] as on 03-06-2022 plus future interest plus other charges within 60 days from the date of notice/date

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 19th

The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank for an amount of Rs. 1,42,624/- [Rupees One lakh forty two thousand six hundred twenty four only ] as on 03-06-2022 plus future interest plus other

charges. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES House Property R/o 3387 Gupta Ganj /thain Mohalla Palwal Tehsil Palwal, Belongs to

Mr. Chander Bhan Gupta S/o Late Jai Chand. Bounded as: North - House of Sh Puranial. South-Public through fare, East - House of Sh. Paramanand, West - House of Tej pal Date: 19-08-2023. Place: Palwal Authorised Officer, Punjab National Bank

puniab national bank पंजाब मैशनल बैंक the name you can BANK upon

PNB MINAR GATE (067310) PALWAL POSSESSION NOTICE Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank

under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice Served on 12-01-2023 calling upon the Borrower Sh. Sunder lal Raghav S/o Bala Ram Raghav (R/O H No. DH/10 Ward no 8 sallagarh palwal pin code 121102 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 3,06,911/- [Rupees Three lakh six thousand nine hundread eleven only] as on 12-01-2023 plus future interest plus other charges

within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 19th

The borrower's /quarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab

hundread eleven only] as on 12-01-2023 plus future interest plus other charges. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES Property Owned By: Sh. Sunder Lal Raghav s/o Bala Ram Raghav

National Bank for an amount of Rs.306911/- [Rupees Three lakh six thousand nine

EM of Plot/house Comprising In Khewat/khata No 3910/4699, Rect No 143 Killa No 37(30) to the Extent of 10/120 Share Which Comes To 5 Marla I.e 150 Sq Yards Which Is Situated At Sallagarh Tehsil Palwal

Authorised Officer, Punjab National Bank

Date: 24-08-2023, Place: New Delhi Authorised Officer, Union Bank of India Date: 19-08-2023, Place: Palwal New Delhi

financialexp.epap.in

Block Dharmapura Extension Najafgarh New Delhi-110043.

UNSECURED CREDITORS OF GE RENEWABLE R&D INDIA PRIVATE LIMITED

The Scheme was initially approved by the Boards of Directors of the Companies on July 31, 2023 and was filed with the Hon'ble Tribunal. As aforesaid, the Hon'ble Tribunal directed the Companies to convene and hold the meetings to consider and approve the Scheme with or without any modification to the Scheme. Thereafter, the Boards of Directors of the Companies at their respective meetings on August 22, 2023 thought it fit to modify the said Scheme only with respect to the accounting treatment for the demerger of the said Scheme.

In pursuance of the said Order and as directed therein further notice is hereby given that separate

Copies of the said Scheme and of the Explanatory Statement under Section 230(3) read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and form of proxy can be obtained free of charge at the registered office of GERRDIPL located at A-18. First Floor, Okhla Industrial Area, Phase II, South Delhi, New Delhi-110020 or at the office of its advocates DMD Advocates, 30, Nizamuddin East, New Delhi - 110013, India. Persons entitled to

The Hon'ble Tribunal has appointed Mr. Sidharth Aggarwal, Advocate, as the Chairperson of the

(Sidharth Aggarwal)

Date: August 25, 2023

Email: compliance@blsinternational.net; Contact no. +91 11-45795002

Electronic copies of Notice of 39th AGM, procedure and instructions for e-voting and the

beetalrta@gmail.com

Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. at www.msei.in.

beetalrta@gmail.com

Date: 24 August, 2023 Place. New Delhi

Exh. No. 19475

अद्भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: डीएससी 260 साऊथ कोर्ट, डीएलएफ साकेत, नई दिल्ली 110017 CIN: L51503DL1985PLC020195

दूरभाष: +91-7048959386; ई—मेल: adhbhut.ind@rediffmail.com वेबसाइट: www.adhbhutinfra.in

विडियो कान्फ्रैसिंग/अन्य आडियो विज्वल माध्यम द्वारा होने वाली अठतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक के सम्बन्ध में जानकारी

अद्भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की अठतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम"), कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') साथ में लाग सभी प्रावधानों एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं), विनियमन, 2015, ("सेबी लिस्टिंग दायत्वों") साथ में कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी पठित साधारण परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 एवं साधारण परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में एजीएम ब्लावे की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय के निष्पादन हेत् विडियों कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा बुधवार, सितम्बर 20, 2023 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित की जायेगी। सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा शामिल होकर भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कम्पनी अधि ानियम, 2013 की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना के उदेश्य से गिना जायेगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना के साथ कम्पनी की वित्तीय वर्ष | 2022-23 की वाषिर्क रिपोर्ट उन सदस्यों, जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदारों के पास पंजीकृत को केवल ईमेल द्वारा भेज दी जायेंगी।। उपरोक्त कागजात साथ में कम्पनी की वेबसाइट i.e. https://adhbhutinfra.in/, स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइट i.e. बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं सीडीएसएल की वेबसाइट i.e. www.evotingindia.com पर भी

कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम ("ई–वोटिंग") द्वारा एजीएम में विचार किये जाने वाले प्रस्ताओं पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करा रही है और एजीएम की सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर ई-वोटिंग द्वारा निष्पादन किया जा सकता है। कम्पनी वीसी/ओएवीएम माध्यम द्वारा भाग लेने वाले अपने सदस्यों को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कराने के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। सदस्यों को सीडीएसएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जायेगी। वीसी/ओएवीएम माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग, डीमैट प्रपत्र अथवा भौतिक प्रपत्र में शेयर धारित सदस्य एवं जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया हैं।

एक सदस्य जिसका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदारों के साथ पंजीकृत नहीं है और जो ईमेल के माध्यम से सजीएम की सूचना एवं 2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना चाहता है और वीसी/ओएवीएम माध्यम एवं एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट देने अथवा रिमोट ई-वोटिंग के लिए युजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहता हो तो उसे निम्न प्रक्रिया का पालन कर अपना ईमेल पता पंजीकरण करना होगाः

भौतिक होल्डिंग के मामले में : कृपया अपना पैन एवं केवाईसी विवरण (ई–मेल पता एवं बैंक खाते का विवरण सहित) कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन्ट i.e. बीटैल फाईनेन्सियल एण्ड कम्पयूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, बीटैल हाऊस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगिरी, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली - 110062 को investor@beetalfinancial.com एवं beetalrta@gmail.com पर निर्धारित फार्म आईएसआर-1 को विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षरित साथ में अन्य प्रासांगिक फार्म्स के साथ पंजीकृत/अपडेट करा लें। सदस्य प्रासांगिक फार्म्स के लिए कम्पनी की वेबसाइट https://adhbhutinfra.in/ पर पहुंच सकते हैं।

डीमैट हाल्डिंग के मामले में : डिमैटरीलाइज माध्यम में शेयर धारित सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते प्रासांगिक डिपॉटरीज भागीदारों, जिनके पास उनके डीमैट खाते बनाये गये हैं, के पास पंजीकृत/अपडेट करा लें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट नोट्स एवं एजीएम में शामिल होने के अनुदेशों को मिलाकर और एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के तरीकों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें।

अधिक जानकारी के लिए, सदस्य कम्पनी/आरटीए को adhbhut.ind@rediffmail.com/ investor@beetalfinancial.com पर लिख सकते हैं।

कृते अद्भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

**स्थान** : नई दिल्ली अध्यक्ष कम पूर्णकालिक निदेशक **दिनांक** : 24.08.023

Name of the Target Company

Name of the Acquirer and PACs

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में

**सैनिफ्रा पार्टनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-585, बेसमेंट, सुट जेड-137, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली-110024 पर है।

एतद्वारा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''दिल्ली राज्य'' से ''महाराष्ट्र राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए 24 जुलाई, 2023 को इसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभा में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्रारूप फाइल कर MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकत है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003, दिल्ली पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

सी-585, बेसमेंट, सूट जेड- 137, डीफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली, दक्षिण दिल्ली- 110024 Email: Rajeev.kher@ase-infra.com आवेदक के लिये और की ओर से

सैनिफ्रा पार्टनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम : राजीव दिलीप खेर

> पद : निदेशक डीआईएन : 00764123

नोवा आयरन एण्ड स्टील लि.

तिथि : 25 अगस्त, 2023

स्थान : दिल्ली

पंजी. कार्या: गांव-डागौरी, तहसील बेल्हा, जिला- बिलासपूर, (छत्तीसगढ़) ई-मेलः rai\_nisl2007@yahoo.com वेबसाइटः www.novaironsteel.com (CIN:L02710CT1989PLC010052) फोन: +91-07752-285225-26,

फैक्स: +91-07752-285213 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक, किताब बंदी तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिए सुचना एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस की सुचना में निर्धारित अनुसार व्यापार को पुरा करने के लिए सेबी परिपत्र और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जार्र संबंधित परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम के लागू प्रावधानों की

अनुपालना में शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को अपराह्न 01.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत है और कंपनी की वेबसाइट यार्न www.novaironsteel.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने का निर्देश और ई-वोटिंग की प्रक्रिया जिसमें भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, कंपनी वेबसाइट

www.novaironsteel.com और शेयर बाजार यानी www.bseindia.com पर उपलब्ध

एजीएम नोटिस में दिए गए अनसार अपने ईमेल पते पजीकृत करा सकते है। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए अनरोध पत्र, स्व सत्यापित पेन, शेयर प्रमाणपत्र और ईमेल पते और मोबाइल नंबर की स्कैन की हुई कॉपी के साथ rai\_nisl2007@gmail.com पर एक ईमेल अनुरोध भेजें। दिनांक 15.09.2023 (कट-ऑफ तारीख) पर शेयर रखने वाले सदस्य सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए पात्र हैं और इस तरह की वोटिंग के माध्यम से व्यापार का लेन-देन किया जा सकता है। रिमोट ई-वोटिंग 20.09.2023 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और 22.09.2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी और उसके बाद सीडीएसएल द्वार

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरण के लिए, एजीएम की सूचना देखें। ई-वोटिंग से संबंधित पूछताछ के मामले में, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मेन्युवल www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिखें या श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन प्रयचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंडस, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पर्व), मुंबई- 400013 से संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें अथवा 022-23058542/43 पर कॉल करें।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण किताब एजीएम के उद्देश्य हेतु 17.09.2023 से 23.09.2023 तक (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

स्थानः नई दिल्ली देनांक: 24.08.2023

**BLUE CLOUD SOFTECH SOLUTIONS LIMITED** 

ITTB Software Private Limited (Acquirer 1). Mrs. Janaki Yarlagadda (Acquirer 2),

Mr. Janardhana Doranala Sarma (Acquirer 3)

कते नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड ह./- (धीरज कुमार) कम्पनी सचिव

#### POST OFFER ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS UNDER REGULATION 18 (12) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AS AMENDED OF

**BLUE CLOUD SOFTECH SOLUTIONS LIMITED** 

अनुभव धाम

DIN: 02656812

Registered Office: 1-2-286, Domalguda, Hyderabad-500029, India Corporate Identification Number (CIN): L72200TG1991PLC013135, Tel: 040-23326666 / 8019658999; Email: csbluecloudsoft@gmail.com; Website: www.bluecloudsoftech.com

Open Offer for acquisition of 3,51,00,600\* (Three Crores Fifty One Lakhs and Six Hundred Only) fully paid up equity shares of Rs.2/- each from equ shareholders of Blue Cloud Softech Solutions Limited (hereinafter referred to as "Target Company" or "Blueclouds") pursuant to (i) execution of Share Purchase Agreement (SPA) amongst Duranta Power Projects Private Limited (hereinafter referred to as "Seller 1"), Newton Power Private Limited (hereinafter referred to as "Seller 2") (hereinafter collectively referred to as "Sellers"), ITTB Software Private Limited (hereinafter referred to as "Acquirer 1"), Mrs. Janaki Yarlagadda (hereinafter referred to as "Acquirer 2"), Mr. Janardhana Doranala Sarma (hereinafter referred to as "Acquirer 3") (hereinafter collectively referred to as "Acquirers") and Blue Cloud Softech Solutions Limited (hereinafter referred to as "Target Company") for purchase of 1,41,92,200 (One Crore Forty-One Lakh Ninety two Thousand Two Hundred Only) Equity Shares by the Acquirers from the Sellers dated 17 th February, 2023 and (ii) issuance of 6,00,15,000\*\* (Six Crores Fifteen Thousand) Equity Share on Preferential Basis to Mrs. Janaki Yarlagadda ("Acquirer 2"), representing 100% of the existing Public Shareholding, being the eligible shareholders of the target company for cash at a price of ₹3/- per equity share by the "Acquirers", pursuant to and in accordance with Regulations 3(1) and 4 SEBI SAST Regulations.

\*Public Shareholders hold 3,51,00,600 Shares. However, 26% of the expanded capital (considering all the potential increases in the number of outstanding shares) is 5,67,16,608 which exceeds the public holding, hence restricted to total public holding i.e.,3,51,00,600.

\*\* Total Preferential Issue is for 16,00,40,000 Equity Shares of Blueclouds, wherein Blueclouds is purchasing 4,00,10,000 shares of IT Corpz INC in lieu of issuance of 16,00,40,000 Equity Shares by way of share swap to Mrs. Janaki Yarlagadda (Acquirer 2) (6,00,15,000 Equity Shares), Yas Takaful P.J.S.C. (5,00,12,500 Equity Shares) and BlueSky Capital Fund SPC (5,00,12,500 Equity Shares). The preferential issue made to Yas Takaful P.J.S.C and BlueSky Capital Fund SPC will be in the capacity of public shareholders of Blueclouds.

This Post Offer Advertisement is being issued by Finshore Management Services Limited (hereinafter referred to as "Manager to the Offer"), on behalf of ITTB Software Private Limited (hereinafter referred to as "Acquirer 1"), Mrs. Janaki Yarlagadda (hereinafter referred to as "Acquirer 2"), Mr. Janardhana Doranala Sarma (hereinafter referred to as "Acquirer 3") (hereinafter collectively referred to as "Acquirers"), in connection with the offer made by the Acquirers, in compliance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended ("SEBI SAST Regulations"). The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned offer was made on 24th February, 2023 in Financial Express, English National Daily (in all editions), Jansatta, Hindi National Daily (in all editions), Pratahakal, Marathi daily (in Mumbai edition) and i Prajadarbar, Tamil daily (in Hyderabad edition) newspapers.

_		Wii. Janarunana Doranaia Sarma (Acquirer 5)				
3	Name of the Manager to the Offer	600	gement Services Lir			
4	Name of the Registrar to the Offer	Aarthi Consulta	ints Private Limited			
5	Offer Details:	ŝ.				
	a) Date of Opening of the Offer	2 <sup>nd</sup> August, 202	3 (Wednesday)			
	b) Date of Closure of the Offer	17 <sup>th</sup> August, 202	23 (Thursday)			
6	Date of Payment of Consideration	22 <sup>nd</sup> August, 20	23 (Tuesday)			
7	Details of Acquisition					
SI.	Particulars	Proposed in the	e Offer Document	Actuals		
No		(Letter of Offer)				
.1	Offer Price	Rs.	. 3 per	Rs.	. 3 per	
	8	Fully paid u	p equity share	Fully paid up equity share		
.2	Aggregate number of shares tendered	3,51	,00,600	31		
.3	Aggregate number of shares accepted	3,51,00,600		31		
.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)	Rs. 10,53,01,800		Rs. 93		
7.5	Shareholding of the Acquirers before Agreements/Public Announcement (No. & %)	NIL		NIL		
.6	Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement (SPA)	1,41,92,200 (6.51 %)		1,41,92,200 (6.51 %)		
	• Number					
	% of Fully Diluted Equity Share Capital					
7.7	Shares Acquired by way of Preferential Allotment*	Number 6,00,15,000				
	Number			6,00,15,000 (27.51 %)		
	% of Fully Diluted Equity Share Capital					
'.8	Shares Acquired by way of Open Offer					
	• Number	3,51,00,600 @		31 (0.00 %)		
	% of Fully Diluted Equity Share Capital					
7.9	Shares acquired after Detailed Public Statement	NIL		NIL		
	Number of shares acquired					
	Price of the shares acquired					
	• % of the shares acquired	0;	- 1			
.10	Post offer shareholding of Acquirer					
	• Number	10,93,07,800 (50.11 %)		7,42,07,231 (34.02 %)		
	% of Fully Diluted Equity Share Capital					
.11	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Off	
	• Number	3,51,00,600	10,00,25,000	3,51,00,600	13,51,25,50	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	<b>a</b>	(45.85 %)	l @	(61.94 %)	

accumulating to 21.81.40.800 shares, except as below (i.e., @). @ 3,51,00,600 shares represent 100.00 % of the existing public shareholding.

Target Company in its meeting dated August 8, 2023, made a preferential allotment of 16,00,40,000 (Sixteen Crore Forty Thousand) equity shares at a price of Rs.3/- per equity share, wherein Blue cloud is purchasing 4,00,10,000 shares of IT Corpz INC in lieu of issuance of 16,00,40,000 Equity Shares by way of share swap to Mrs. Janaki Yarlagadda (Acquirer 2) (6,00,15,000 Equity Shares), Yas Takaful P.J.S.C. (5,00,12,500 Equity Shares) and Bluesky Capital Fund SPC (5,00,12,500 Equity Shares). The preferential issue made to Yas Takaful P.J.S.C and Bluesky Capital Fund SPC will be in the capacity of public shareholders of Blue cloud.

8. The Acquirers along with its Directors severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI SAST Regulations.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and the registered office of the Target Company (Blue Cloud

Softech Solutions Limited). 10. The capitalized terms used but not defined in this advertisement shall have the meanings assigned to such terms in the Public Announcement and/or

Detailed Public Statement and/or Letter of Offer.

11. This Post offer Advertisement is being issued in all the newspapers in which the DPS has appeared. Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers



Anandlok Block A, Room-207, 227, AJC Bose Road, Kolkata-700020 Tel: +91- 033-22895101 Website: www.finshoregroup.com Investor Grievance email id: investors@finshoregroup.com Contact Person: Mr. S Ramakrishna Iyengar SEBI Registration No: INM000012185

Finshore Management Services Limited,

Place: Kolkata Date: 25th August, 2023

#### प्रपत्र सं. यूआरसी-2 अधिनियम के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सचना देने के लिये विजापन

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिये प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में]

- एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) में रजिस्ट्रार के पास इस सूचना के पन्द्रह दिनों के बाद किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि आईडियल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, एक ट्रस्ट को एक कम्पनी लिमिटेड के रूप
- में आइडियाजेनस एजुकेशनल वेलफेयर फाउण्डेशन के नाम में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकत की जाये। कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: संबंधित शिक्षा विभागों/प्राधिकरणों/निकायों/विश्वविद्यालयों तथा संबंधित सरकारी प्राधिकरणे
- से मान्यता तथा पुत्यायन प्राप्त कर बच्चों/छात्रों को माध्यमिक, सीनियर सैकण्डरी तथा उच्च शिक्षा पुदान करने के उद्देश्य से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना तथा प्रबंधन करना तथा साथ ही उपरोक्त शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित शैक्षिक सपोर्ट प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति 74, मोह. तखान, बड़ा गुरुद्वारा के सामने
- पीलीभीत 262201 उत्तर प्रदेश में कार्यालय में देखी जा सकती है। एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपित्त केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गाँव (हरियाणा), पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें।

मुकेश कुमार गुप्ता

आइडियल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट



आज, दिनांक 21 अगस्त, 2023 को।

## दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) (CIN L74899DL1956GOI002674)

पंजी. कार्यालय : जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 67वीं वार्षिक आम बैठक हेतू सदस्यों को सूचना

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 के अनुसार सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और 17/2020 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और अप्रैल, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या के साथ पठित ०२/२०२१ दिनांक 13 जनवरी २०२१ और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपन्न संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022, और सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में अधिनियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्क्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमाँ ("ओएवीएम") की सुविचा के माध्यम से गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को पूर्वाह 11:30 बजे कंपनी की 67वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने का

67वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ, ई-वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से 67वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विवरण उन सभी सदस्यों को केवल ई-मेल के माध्यम से भेजे जाएँगे, जिनके ई-मेल पते कंपनी अथवा रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अथवा अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से ही 67वीं वार्षिक आम बैठक में जुड़ सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। 67वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट (www.stclimited.co.in), स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की

कंपनी अपने सभी सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि वे 67वीं वार्षिक आम बैठक में तय सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डाल सकें। दूरस्थ ई-वोटिंग हेत् विस्तृत विवरण उक्त नोटिस में दिए गए हैं।

वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

जिन सदस्यों ने ई-मेल के माध्यम से कंपनी या आरटीए के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे 67वीं एजीएम की सचना, वार्षिक रिपोर्ट और वीसी /ओएवीएम सविधा के माध्यम से 87वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेत् अपना नाम, फोलियो नंबर / डीपीआईडी व क्लाइंट आईडी, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रतिलिपि (डीमैट होने के मामले में), शेयर प्रमाण पत्र की कॉपी - सामने और पीछे (भौतिक होल्डिंग्स के मामले में), पैन कार्ड की ख-सत्यापित स्कैन की गई प्रतिलिपि और ई-मेल पता दर्ज करने के समर्थन में आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति उपलब्ध कराकर अपना ई-मेल पता मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास admin@mcsregistrars.com पर या कंपनी के पास cs@stclimited.co.in पर ई-मेल के माध्यम से पंजीकृत करा सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो 67वीं एजीएम के नोटिस के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शेयर प्राप्त करता है और अंतिम तारीख यानी बुधवार, 13 सितम्बर, 2023 को शेयर रखता है, वह 67वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों अनुसार या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

यदि आपको एजीएम में शामिल होने में तथा ई-वोटिंग प्रणाली के द्वारा ई-वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ("FAQs") और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या श्री राकेश दाल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक (हेल्पलाइन नं: 022-23058542, 1800 22 5533 ) से संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त सुचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाग के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से

24.08.2023 नई दिल्ली

हस्ताक्षर/-विपिन त्रिपाठी कंपनी सचिव

## NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED CIN: L51909DL1984PLC019485 Regd. Office-9062/47, RAM BAGH ROAD,

AZAD MARKET, DELHI- 110006 Tel. No.-011-23517516-19, Email Id-cs@neccgroup.com, Website- www.neccgroup.com

### NOTICE TO THE MEMBERS FOR UPDATE OF E-MAIL ADDRESS AND OTHER INFORMATION

Pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 & Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 & Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (referred to as "SEBI Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at the meeting. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars and SEBI Circular, the upcoming 38th AGM of the Company will be held on Saturday, 16th Day of September, 2023 at 12.30 P.M (IST) through VC/OAVM. Hence, Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

Pursuant to the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of 38th AGM along with the Annual Report for FY 2022-2023 will be sent through electronic mode only, to those Members whose E-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with Depository Participant ("DP")/ Depository. The Company is also providing e-voting during the AGM and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository, Notice of AGM along with annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/RTA or DP/ Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining notice, annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting. Registration/updation of e-mail addresses& bank account details:

Physical | Send a request to RTA of the Company i.e. MAS Services

Holding | Limited at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase -II, New Delhi - 110 020 in duly filled Form No. ISR-1 which can be downloaded from the website of the RTA's website i.e. www.masserv.com under download tab. You can also send the Form No. ISR-1 with digital signature to RTA's email id investor@masserv.com under copy marked to company at cs@neccgroup.com

Please contact your DP and register your email address Holding and bank account details as per the process advised by DP.

E-voting Information:

The Company will provide its shareholders facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by NSDL. Electronic voting shall also be made available to the shareholders participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website viz. www.neccgroup.com.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-2023 will also be available on Company's website www.neccgroup.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock

Exchange of India Ltd at www.nseindia.com. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In case of any query, the Members may contact or write RTA at address & E-mail ID as mentioned above under copy marked to the Company. For North Eastern Carrying Corporation Limited

Place: Delhi Date: 24.08.2023

Sunil Kumar Jain Chairman & Managing Director

प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (ततीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वाद सं. ओए/1707/2017 अधिनियम की थारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पिटत ऋण वसली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन

पंजाब नैशनल बैंक

गुरप्रिंदर सिंह रमन्ना एवं अन्य

(1) गुरप्रिंदर सिंह रमन्ना एवं अन्य, <u>प्रथम पताः</u> मकान नं. 1347, सेक्टर-14, फरीदाबाद। <u>द्वितीय पताः</u> मकान नं. 64, सेक्टर-21बी, फरीदाबाद <u>तीसरा पताः</u> मकान नं. 3(जीएफ), सेक्टर-18 ए, चंडीगढ़ चतुर्थ पताः फ्लैट नंबर डी-5, 101, पुरी कंस्ट्रवशन

(2) श्री चरणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री मोहिंदर सिंह, निवासी नं. 64, सेक्टर-21बी, फरीदाबाद

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 23,62,439.13 के ऋण की वसुली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए

जबिक, ओए/1707/2017 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 27.07.2023 को प्रस्तुत

गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्वेश दिया जाता है:-

(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए; (ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त

सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें; (iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है;

(iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित सुजित किया गया है तथा√अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अधवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे;

(V) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभृत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त डोने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक बैंक अथवा विलीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 02/09/2023 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 31.07.2023 को दिया गया। अधिकारी के इस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : जी-4बी-1, एक्सटेंशन मोहन को-ऑपरेटिव औद्योगिक् संपदा, मथुरा मार्ग, नई दिल्ली – 110044

सीआईएन : L51909DL1983PLC016907 वेबसाइट : http://www.blsinternational.com, ई—मेल : compliance@blsinternational.net, दूरभाष सं: +91 11-45795002 बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक

कंपनी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी" की 39वीं वार्षिक आम बैठक (39वीं एजीएम) गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को 03.00 बजे आईएसटी प वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''वीसी / ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम रें आयोजित की जाएगी, जो कि 39वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित किए जाने वाले व्यवसाय क संचालन करने हेतू, और जो कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के लागू प्रावधानों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 2/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 3/2022 दिनांक 5 मई 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वार निर्गत सेबी परिपत्र संख्यायें सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई 2022 और सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 (''सेबी परिपत्र'') के अनुपालन में तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियमावली") के अनुपालन में, आयोजित की जायेगी।

39वीं एजीएम की सूचना, ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं अनुदेश तथा वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 की इलेक्टॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनका ईमेल पता 25 अगस्त 2023 के अनसार आरटीए अर्थात बीटल फाइनेंशियल कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ एजीएम की सूचना की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजी जाएगी जो अपने नाम, फोलियो नंबर / डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी क उल्लेखन करते हुए compliance@blsinternational.net पर उसके लिये अनुरोध करते हैं। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटर्र प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्टॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में और कंपनी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास ईमेल द्वारा भौतिक रूप में रखे ग शेयरों के संबंध में इसे compliance@blsinternational.net/beetalrta@gmail/com पर पंजीकृत करें 39वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक प्रतिवेदन 2022–23, कंपनी की वेबसाइद https://www.blsinternational.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर, एनएसई इंडिया लिमिटेड https://www.nseindia.com पर ए मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.msei.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। अधिनियम की धारा 91 तथा सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तिकायें शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 से लेकर के गुरुवार, 2

सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। कंपनी अपने उन सदस्यों को, जिनके नाम 14 सितंबर, 2023 (गुरुवार) (''कट–ऑफ तिथि'') के व्यवसाय दिवस के समापन पर सदस्यों की पंजिका / लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रवष्टि पाये जाते हैं, 39वीं एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने हेत्, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल" प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर अनुदेश, जिसमे भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों या जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उन सदस्यों ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं, सहित, 39वीं एजीएम की सूचना के भाग के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

जो सदस्य डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान / बदलना / सही करना चाहते हैं, उन्हें इसे तूरंत अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजन चाहिए. न कि कंपनी को। सदस्यों से यह भी अनरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपने बैंक खाते का आईएफएससी, एमआईसीआर कोड दें। लाभांश का भगतान करते समय, आरटीए ऐसे डिमटेरियलाइज्ड शेयरों के मामले में केवल डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए डेट का उपयोग करने के लिए बाध्य है। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उन्हें सलाह र्द जाती है कि वे अपने बैंक खाते का विवरण जमा करें, वे बैंक की शाखा का नाम और पता. शाख का आईएफएससी, एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार और खाता संख्या आरटीए के beetalrta@gmail.com पर ईमेल द्वारा भेजें।

कृते बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड धारक मेहत

कंपनी सचिव एव

अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 24— अगस्त-2023 स्थान : नई दिल्ली

आईसीएसआई सदस्यता सं. एसीएस 40502 हिन्दुस्तान अधेसिव लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1988PLC031191 दुरभाष : 011-41650347-48,

पंजीकृत कार्यालय : बी-2/2, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029

ई-मेल : accounts@hindustanadhesives.com, वेबसाइट : www.bagla-group.com एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों

तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 10/2022 क्रमश- दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 और 28 दिसंबर 2022 ('एमसीए परिपन्न') के साथ पठित सेबी (सचीबद्धता दायित्व और उदघाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना कंपनी की पैंतीसवीं (35वीं) वार्षिक आम बैठक शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को दोपहर 2:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल

साधनों (ओएवीएम) की सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के साथ एजीएम की सुचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते उक्त एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनुसार कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 कंपनी की वेबसाइट www.bagla-group.com और कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवर वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और इसमें उपस्थित हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले

सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी। हम उन सभी शेयरधारकों से आग्रह करते हैं जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे बिना किसी व्यवधान के सभी संचार तुरंत प्राप्त करने के लिए तुरंत ऐसा करें। रिकॉर्ड में सही ईमेल पता अपडेट करने से, खासकर इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, हमें आपके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद

इस उद्देश्य हेतु, हम उन शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने अपने ई-मेल पते तथा स्थायी खाता संख्या अपडेट नहीं कराये हैं, कृपया अपने पैन कार्ड/आधार/वैध पासपोर्ट/शेयर प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ अपने फोलियो नं./डीपी/क्लाइंट आईडी, प्रमाणपत्र सं., पैन, मोबाइल नं., ई-मेल आईडी का उल्लेख करते हुए नीचे उल्लिखित लिंक का अनुपालन करके इसे पंजीकृत कराने का निवेदन किया जाता है।

सदस्यों के ई-मेल आईडी तथा बैंक विवरण पंजीकृत कराने की प्रक्रिया : जिन सदस्यों के पास कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट प्रारूप में हैं और जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं वे अपने ई-मेल पते कम्पनी के रिजस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक http://linkintime.co.in/emailreg/email\_register.htm' पर क्लिक करके और उसमें निर्देशित पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करके अस्थायी रूप से पंजीकत करा सकते हैं। किसी पूछताछ के लिए सदस्य मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के पास

rnt.helpdesk@linkintime पर ई-मेल कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते तथा अपने डीमैट खाते में बैंक विवरणों को स्थायी रूप से पंजीकृत कराने के लिए सदस्य अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार (''डीपी'') से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा परामर्शित प्रक्रिया का अनुपालन करें। भौतिक प्रारूप में कम्पनी के इक्विटी शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पता तथा/अथवा बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं कराया है वे अपने ई-मेल पते कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट

मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक http://linkintime.co.in/emailreg/email register.htm' पर क्लिक करके और उसमें निर्देशित पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करके अस्थायी रूप से पंजीकत करा सकते हैं किसी पछताछ के लिए सदस्य मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के पास rnt.helpdesk@linkintime

पर ई-मेल कर सकते हैं। यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है. उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए, कंपनी के शेयरधारकों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है:

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी,

दूरभाषः 011-41410592/93/94, टेलीफैक्सः 011-41410591, ईमेलः delhi@linkintime.co.in से सम्पर्क करें। कृते एवं हिते हिन्दुस्तान अधेसिव लिमिटेड

तिथि : 24.08.2023

स्थान : नई दिल्ली

मधुसूदन बगला (प्रबन्ध निदेशक)

www.readwhere.com